



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 21]
No. 21]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 1982/माघ 5, 1903
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 1982/MAGHA 5, 1903

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 25 जनवरी, 1982

सा० का० नि० 25(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन ब्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अनुसरण में और भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 265 (अ०) दि० 26 मार्च, 1979 को अधिकृत करते हुए कोचीन पत्तन के न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा किए जाने वाले उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित, व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी

वे हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

| 1 | 2 |
|--------------------------|---|
| पत्तन में नियोजित श्रमिक | 2 |
| वाणिज्यिक समुद्री विभाग | 1 |
| सीमा शुल्क विभाग | 1 |
| केरल सरकार | 1 |

1246 GI/81

| 1 | 2 |
|--|----|
| रक्षा सेवाएं | 1 |
| भारतीय रेल | 1 |
| नौवहन और परिवहन मंत्रालय | 1 |
| समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकारी | 1 |
| बृहत कोचीन विकास प्राधिकरण | 1 |
| कुल | 10 |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1982 को लागू सामी जाएगी।

[फा०सं० पी डब्ल्यू/पीटीडी-85/81]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th January, 1982

G. S. R. 25 (E):—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G. S. R. 265(E) dated 26-3-1979, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed by

that Government to represent the interests mentioned in column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Cochin :

TABLE

| Interests to be represented | Number of persons to be appointed |
|--|-----------------------------------|
| (1) | (2) |
| Labour employed in the Port | 2 |
| The Mercantile Marine Department | 1 |
| The Customs Department | 1 |
| The Government of Kerala | 1 |
| The Defence Services | 1 |
| The Indian Railways | 1 |
| Ministry of Shipping & Transport | 1 |
| Marine Products Export Development Authority | 1 |
| Greater Cochin Development Authority | 1 |
| Total | 10 |

2. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F. No. PW/PTB-65/81]

सांकांनि 26(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन ब्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के उपबन्धों के अनुसरण में, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सांकांनि० 266 (अ) दि० 26 मार्च, 1979 को अधिकांश करते हुए कोचीन पत्तन के ब्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सारणी के क्रमशः स्तम्भ 2 और 3 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में वर्णित प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्येक निकाय सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित व्यक्तियों की संख्या को विनिश्चित करती है :

परन्तु सरकार के स्वाभिव्यक्ति या नियंत्रण के अधीन उक्त सारणी की क्रम सं० 6 के सामने वर्णित निकाय की दशा में, ऐसे निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

सारणी

| क्र०सं० | निकायों का नाम | हित | निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या |
|---------|---|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ | पोतस्वामी | 1 |
| 2. | कोचीन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कोचीन | पोतस्वामी | 1 |
| 3. | इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, कोचीन | नाविक | 1 |
| 4. | एर्नाकुलम चैम्बर आफ कामर्स, एर्नाकुलम | नाविक | 1 |
| 5. | कोचीन निगम | अन्य हित | 1 |
| 6. | कोचीन शिपयार्ड लि० | अन्य हित | 1 |
| | कुल | | 6 |

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, 1 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि की ऐसी अवधियों के प्रश्न में विनिश्चित करती है, जिसके भीतर ब्यासियों का निर्वाचन किया जायेगा ।

3 यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1982 से लागू मानी जाएगी !

[फ०सं० पी०डब्ल्यू/पी०टी०बी० 65/81]

एस०पी० एसब्रोम प्रभार सचिव

G. S. R. 26(E):—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G. S. R. 266(E) dated 26-3-1979, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column 4 of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the interests, shown respectively in column 2 and 3 of the said Table, on the Board of Trustees of the Port of Cochin :

Provided that in the case of body mentioned against serial number 6 of the said Table, being owned or controlled by the Government, the person to be elected by such body shall be appointed by the Central Government.

TABLE

| Serial Number | Name of bodies | Interests | Number of persons to be elected |
|---------------|---|-----------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Indian National Shipowners Association | Shipowners | 1 |
| 2. | Cochin Chamber of Commerce and Industry Cochin. | Shipowners | 1 |
| 3. | Indian Chamber of Commerce, Cochin. | Shippers | 1 |
| 4. | Ernakulam Chamber of Commerce, Ernakulam. | Shippers | 1 |
| 5. | Corporation of Cochin | Other interest | 1 |
| 6. | Cochin Shipyard Limited | Other interests | 1 |
| | Total | | 6 |

2. In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period ending with the 1st March, 1982, as the period within which the election of Trustees shall be held.

3. This notification shall come into force on the 1st April, 1982.

[F. No. PW/PTB-65/81]

S. P. AMBROSE, Addl. Secy.